



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-03-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-03-11 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-03-12	2022-03-13	2022-03-14	2022-03-15	2022-03-16
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	10.0	10.0	10.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	35	35	35
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	65	65	70	70
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	320	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0 से 22.0 व 9.0 से 11.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 16 से 22 मार्च के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी एप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए, 26 फरवरी से 4 मार्च के दौरान एनडीवीआई 0.2 से 0.45 के बीच है। यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम से अच्छी है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से अर्थात् 2 फरवरी से 3 मार्च के दौरान नैनीताल जिले में हल्की सूखे की स्थिति दर्शाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। किसान भाई, खेतों में सिंचाई व रसायनों का छिड़काव आदि कृषि कार्य कर सकते हैं।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	फसल में पुष्पन अवस्था में सिंचाई करें। असिंचित फसल में पुष्पन अवस्था से पूर्व यूरिया के 2 प्रतिशत घोल 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी का पर्णय छिड़काव करना लाभप्रद सिद्ध होगा।
सरसों	सरसों की फसल की कटाई एवं मड़ाई करें।
जौ	किसान भाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए फसलो में सिंचाई करें। झुलसा रोग का प्रकोप होने पर 50 ग्राम /15 लीटर पानी की दर से 1 नाली में उाले। रसायनों का छिड़काव मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	घाटियों में आलू में झुलसा रोग से बचाव के लिए 0.25 प्रतिशत इण्डोफिल-45 का घोल बनाकर छिड़काव करें, सिंचाई करें व 50 किग्रा यूरिया/है की दर से खड़ी फसल में डालें। खेत की तैयारी के समय 200 कुन्तल गोबर की सड़ी खाद डाले तथा उपलब्धतानुसार आखिरी जुताई पर रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग करें तथा 60 सेमी. की दूरी पर मेड़ बनाकर इन पर 15 सेमी की दूरी पर बीज बोयें।
राजमा/ लोबिया	लोबिया की बुवाई करें।
बैंगन	बैंगन की फसल में निराई-गुड़ाई करे।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं के बैठने का स्थान समतल होता चाहिए ताकि उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो तथा इस समय नवजात पशुओं के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दें। बैठने का स्थान समतल ना होने पर पशु खड़ा रहेगा जिससे वह तनाव में आ सकता है और उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी।